

**FAHAN**  
**INTERNATIONAL**  
**SCHOOL**  
**HOLIDAY HOMEWORK**

**NAME**

\_\_\_\_\_

**CLASS**

\_\_\_\_\_

**ROLL NO.**

\_\_\_\_\_

**SUBJECT**

\_\_\_\_\_

- Please paste this page on the front cover of the copy
- Make index table of your homework on the first page of the copy.

## CLASS 4<sup>th</sup>

### SUB- ENGLISH

1. Draw , colour, and design a beautiful nameplate with names of all your family members.
2. Do Cursive writing in your cursive writing book.(1 to 10 pages).
3. Learn and revise your previous chapters.

### SUB- हिन्दी

- 1 स्वरोँ की मात्राएं लिखकर नए शब्द बनाएं और चित्र शीट पर चिपकाए (ए3 साइज शीट पर)
- 2 वचन शब्दो को चित्र द्वारा दर्शा कर एक प्रोजेकट तैयार कीजिए। (ए3 साइज शीट पर)
- 3 प्रतिदिन एक पेज का सुलेख करें और प्रतिदिन एक पेज कि रीडिंग करें। और कठिन शब्दों का श्रुतलेख शीट करें।
- 4 पी.ए.वन का सिलेबस याद करें।

### SUB- SCIENCE

1. Draw the diagram of PHOTOSYNTHESIS.
2. Grow one plant in a pot.
3. Draw 2-2 picture of sources of carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals.
4. Write 8 lines on good eating habit.

## SUB- COMPUTER

1. Write five shortcut keys (you can take help from Google). And describe their functions on an A4 size sheet.
2. Revise the PA 1 syllabus.

## SUB- SOCIAL SCIENCE

1. Learn and revise what is done in book and copy.
2. Paste National Symbols on A4 size sheet.
3. Make a list 28 states with capitals on A4 side sheet.

## SUB- MATH

### **Q1. Solve:**

- |                       |                     |                       |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| (1) $5000 + 25 + 3 =$ | (2) $300 + 2 =$     | (3) $500 - 1 =$       |
| (4) $1000 - 10 =$     | (5) $2500 + 1001 =$ | (6) $45269 - 10000 =$ |

### **Q2. Solve:**

- |                       |                                |                               |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) $300 \times 10 =$ | (2) $55 \times 100 =$          | (3) $23 \times 76 =$          |
| (4) $123 \times 32 =$ | (5) $2 \times 15 \times 100 =$ | (6) $25 \times 6 \times 10 =$ |

Q3. The difference between 6000 and 2546 is.....

### **Q4. Multiply the following:**

- |                      |                       |                     |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| (1) $35 \times 12$   | (2) $78 \times 25$    | (3) $159 \times 69$ |
| (4) $256 \times 785$ | (5) $3562 \times 654$ |                     |

**Q5. Divide the following:**

(1)  $625 \div 5$

(2)  $362 \div 2$

(3)  $2580 \div 4$

(4)  $3694 \div 6$

(5)  $36972 \div 10$

**Q6. Solve the following:**

(1)  $2563 + 3566 - 1231$

(2)  $45602 - 10022 + 5563$

(3)  $30111 + 25321 - 15320$

(4)  $2589 - 1022 + 956$

**Q7. Fill in the blanks:**

(1)  $3526 \times 0 =$  \_\_\_\_\_

(2)  $100 \times 100 =$  \_\_\_\_\_

(3)  $659 \times 1 =$  \_\_\_\_\_

(4)  $15 \times 62 =$  \_\_\_\_\_  $\times 15$

(5)  $13 \times 6 \times 20 =$  \_\_\_\_\_

(6)  $674 \div 1 =$  \_\_\_\_\_

(7)  $450 \div 10 =$  \_\_\_\_\_

(8)  $365 \div 5 =$  \_\_\_\_\_

Q8. Solve:  $1000 + 300 + 4$

Q9. Expand: 4287

Q10. Write 45,62,366 in number name.